

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3007]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4113(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, धारा (ii) दिनांक 22 सितम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) संख्या का.आ. 3036(अ), 22 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा –

मौजूदा अधिसूचना की उक्त अनुसूची में;

- (i) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 6 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक "नामफिंग", प्लॉट सं. "91" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (ii) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 18 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक "नामफिंग", प्लॉट सं. "38" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (iii) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 34 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक "रेशायप", प्लॉट सं. "272" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (iv) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 64 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक "डोरिंग", प्लॉट सं. "223" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।

- (v) भूमि का प्रकार (कॉलम सं. 5) के तहत क्रम संख्या 65 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " डोरिंग", प्लॉट सं. "217" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (vi) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 294 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " देव", प्लॉट सं. "253" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (vii) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 352 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " देव", प्लॉट सं. "665" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (viii) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 353 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " देव", प्लॉट सं. "635" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (ix) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 369 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " बेन", प्लॉट सं. "250" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (x) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 370 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " बेन", प्लॉट सं. "244" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (xi) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 371 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " बेन", प्लॉट सं. "243" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (xii) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 398 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " नामफ्रिक", प्लॉट सं. "286" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (xiii) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 399 में उप मंडल "नामची" ब्लॉक " नामफ्रिक", प्लॉट सं. "288" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (xiv) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 454 में उप मंडल "राबोंगला" ब्लॉक " सांगमू", प्लॉट सं. "484" के सामने 'निजी' को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (xv) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 472 में उप मंडल "राबोंगला" ब्लॉक " सांगमू", प्लॉट सं. "524" के सामने 'निजी' के को 'सरकारी' के रूप में पढ़ा जाए।
- (xvi) भूमि का प्रकार (कॉलम सं.5) के तहत क्रम संख्या 487 में उप मंडल "राबोंगला" ब्लॉक " सांगमू", प्लॉट सं. "651" के सामने 'सरकारी' को 'निजी' के रूप में पढ़ा जाए।

नोट: अन्य सभी प्रविष्टियां अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/सिक्किम/एलए/सिंगटम-ग्यालसिंह/2016]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd December, 2016

S.O. 4113(E).—In the exercise of the powers conferred by the clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the central government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways **S.O. No. 3036 (E) dated 22nd September, 2016** published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Sub-section (ii) dated 22nd September, 2016 namely.

In the Existing schedule to the said Notification

- (a) Against Serial no. 6, Sub Division “Namchi”, Block “Namphing”, Plot No. “91”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (b) Against Serial no. 18, Sub Division “Namchi”, Block “Namphing”, Plot No. “38”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (c) Against Serial no. 34, Sub Division “Namchi”, Block “Reshyap”, Plot No. “272”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (d) Against Serial no. 64, Sub Division “Namchi”, Block “Doring”, Plot No. “223”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (e) Against Serial no. 65, Sub Division “Namchi”, Block “Doring”, Plot No. “217”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (f) Against Serial no. 294, Sub Division “Namchi”, Block “Dew”, Plot No. “253”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (g) Against Serial no. 352, Sub Division “Namchi”, Block “Dew”, Plot No. “665”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”
- (h) Against Serial no. 353, Sub Division “Namchi”, Block “Dew”, Plot No. “635”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”
- (i) Against Serial no. 369, Sub Division “Namchi”, Block “Ben”, Plot No. “250”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”
- (j) Against Serial no. 370, Sub Division “Namchi”, Block “Ben”, Plot No. “244”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”
- (k) Against Serial no. 371, Sub Division “Namchi”, Block “Ben”, Plot No. “243”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”
- (l) Against Serial no. 398, Sub Division “Namchi”, Block “Namphrick”, Plot No. “286”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (m) Against Serial no. 399, Sub Division “Namchi”, Block “Namphrick”, Plot No. “288”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”
- (n) Against Serial no. 454, Sub Division “Rabongla”, Block “Sangmoo”, Plot No. “484”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (o) Against Serial no. 472, Sub Division “Rabongla”, Block “Sangmoo”, Plot No. “524”, under Type of Land (column no. 5) for “**PRIVATE**” read “**GOVT.**”
- (p) Against Serial no. 487, Sub Division “Rabongla”, Block “Sangmoo”, Plot No. “651”, under Type of Land (column no. 5) for “**GOVT.**” read “**PRIVATE**”

Note:- All other entries remain unchanged

[F. No. NHIDCL/Sikkim/LA/Singtam-Gyalsingh/2016]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.